



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 191 राँची, गुरुवार,

28 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 जनवरी, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-5/2016 का० 737-- चूंकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री शारदा नन्द देव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-586/03, गृह जिला दरभंगा), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध कोडरमा-राँची रेल पथ निर्माण हेतु चन्दवारा मौजा में श्री महेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य 12 रैयतों की 12 एकड़ 54 डिसमिल अधिग्रहित जमीन के लिए अनुमान्य मुआवजे की राशि के भुगतान में 10% की दर से कमीशन के रूप में एक बड़ी राशि की वसूली करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-442/स्था०, दिनांक-14.05.2016 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री देव के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री देव का आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री देव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री देव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
